




विकलांगों की सेवा के लिए रोजगार  
सुविधाओं को अधिक बढ़ाना

“ यह विचार कि कुछ लोगों के जीवन का मोल कम है  
इस संसार में होने वाली गलत चीजों का मूल है।”

- डॉ. पॉल फार्मर

एमईएसएच का उचित व्यापार तथ्य पत्रक:

कार्य करने हेतु अच्छा माहौल सुनिश्चित करना :



संगठन कारीगरों व सदस्यों के लिए सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद कार्य करने का माहौल प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य व सुरक्षा के राष्ट्रीय व स्थानीय कानूनों को लागू करता है।

सभी कारीगरों व सदस्यों (घरेलू काम करने वालों) को राष्ट्रीय व स्थानीय कानून व कायदों की पालना करते हैं।

उचित व्यापार समूह स्वास्थ्य व सुरक्षा की स्थितियों के बारे में जानते हैं और निरंतर उत्पादक

समूहों में स्वास्थ्य व सुरक्षा मुद्दों के विषय में जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। वे स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रथाओं में सुधार का भी प्रयास करते हैं।

कार्य के अच्छे माहौल में निम्न सकारात्मक तत्व शामिल होते हैं:

- कारीगरों उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण में होने वाले नुकसान से बचाना
- कारीगरों के स्वास्थ्य व सेहत में सुधार और
- व्यापारिक सफलता में कारीगरों की उच्च उत्पादन क्षमता द्वारा बढ़ोतरी करना।

सिद्धान्त सात के अनुसार उत्पादक समूहों की निगरानी निम्न बिन्दुओं के आधार पर की जाती है:

अनुपालन मापदंड	संकेतांक जो दर्शाते हैं कि आप अनुपालन कर रहे हैं :
स्वास्थ्य व सुरक्षा स्थितियों का जोखिम मूल्यांकन	समूह समय-समय पर स्वास्थ्य व सुरक्षा स्थितियों एक बुनियादी मूल्यांकन करता है ।
दुर्घटना या कार्य से संबन्धित स्वास्थ्य समस्याओं को दर्ज करना	कारिगरों की दुरघटनाएं व कार्य संबन्धित स्वास्थ्य समस्याओं को दर्ज किया जाता है और विश्लेषण के बाद उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है ताकि भविष्य में समान प्रकार के मामलों से बचा जा सके।
गर्भवती महिलाओं से संबन्धित कानूनी आवश्यकता	समूह गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं से संबन्धित कानूनी आवश्यकताओं को लागू करता है और उनकी विशिष्ट स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी जरूरतों पर ध्यान देता है। <a href="http://www.prsindia.org/billtrack/the-maternity-benefit-amendment-bill-2016-4370/">http://www.prsindia.org/billtrack/the-maternity-benefit-amendment-bill-2016-4370/</a>
कार्य के दौरान सुरक्षित माहौल	समूह कार्य के दौरान सुरक्षित माहौल प्रदान करता है: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ किसी भी प्रकार के रसायनों का उचित तरीके से प्रबंधन</li> <li>◆ दुर्घटनाओं से बचने के लिए मशीनों की सुरक्षा</li> <li>◆ सुरक्षित पेय जल</li> <li>◆ समुचित शौचालय सुविधाएं</li> <li>◆ सुरक्षात्मक कपड़े व अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं</li> <li>◆ प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान</li> <li>◆ अग्नि रक्षक उपकरण</li> </ul>
सामाजिक लाभ	समूह अपने कारिगरों को कानूनन रूप से मान्य सामाजिक लाभ प्रदान करता है (जैसे सेवानृवित्ति कोश, बीमारी अवकाश, बुनियादी सामाजिक सुरक्षा) .

**संदर्भ:**

<http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade>

[https://store.hesperian.org/prod/Workers\\_Guide\\_to\\_Health\\_and\\_Safety.html](https://store.hesperian.org/prod/Workers_Guide_to_Health_and_Safety.html)

शुभेच्छा सहित,

एमईएसएच